

English to हिंदी-اردو Sentences

उसने मुझे बहुत गाली दी.

• She abused me.

Usnay mujhy kafi galee dee.

तुम उससे पार नहीं पाओगे.

• You will not be able to deal with him.

Ap iskay sath nimat nhee saku gay.

लात के देवता बात से नहीं मानते.

• Rod is the logic of fools.

latoon kay bhoot baatu say nhe mantay.

.वह अपने आप को कुछ समझता है.

• He gives himself airs.

Wuh khud ko maghror samjhta hay.

उसके पास रुपए नहीं थे.

• He had no money.

Usaky pas paisay nhe thay.

मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ.

• I beg your pardon.

Main mua'afi chahta hu.

आप किस चीज़ से परेशान हैं.

• What are you upset about?

App kis baaat par preshan hain.

English to हिंदी-اردو Sentences

अगली गाड़ी कितने बजे खुलती है?

- What time does the next train leave?

Train kab chalti hay?

तुमने मेरा सिर नीचे कर दिया है.

- You have bought me to shame.

Tum nay sharam say mera sir jhuka diya.

जिसके सिर पर बीतती है वही जानता है.

- The wearer alone knows where the shoe pinches.

takleef ka pataa usay hota hay jisay dard hotaa hay.

किताबों को सिलसिले से रखो.

- Put the books in order.

kitaaben tartib say rakh dain.

समय व्यतीत करना ही पड़ता है.

- One has to pass time anyhow.

waqat to kisi tarah guzrana partaa hay.

उसने मेरी उम्मीदों रौंद दिया.

- He crushed my hopes.

Usnay meri sari umeeden kuchal dain.

English to हिंदी-اردو Sentences

हम मर मिटेंगे पर झुकेंगे नहीं.

- We will break but not bend.
Ham Tot Jangay laken jhukany walay nhee hain.

उसके लिए एक-एक पल भारी था.

- Every moment weighed heavily on him.
Har lamha us par bhari thaa.

घुटने टेको और ईश्वर को धन्यवाद दो.

- Kneel down and give thanks to God.
jhuk jao aur God ka shukariya ada karu.

फिर मिलेंगे।

- See you again.
Pher miltay hain.

और कुछ नहीं।

- Nothing else.
Aur Kuch nhee.

तुम कैसे जाओगे?

- How will you go?
Tum kaise jaoge?

क्या तुम उसे पहचानते हो?

- Do you recognize him?
kiyaa tum usay pehchanty hu?

English to हिंदी-اردو Sentences

आप में से एक शब्द नहीं।

- Not a word out of you.
Munh say ayk shabd bhee naa nikaly.

कभी नहीं।

- Not at all

Kabhee nhi

कोई बात नहीं।

- Not a Problem.

Koe masle ee nhee

क्या तुमने घड़ी में चाभी दी है?

- Have you wound the watch?
kiyaa tum nay ghadi ko chabi de?

कल ज्वर उतर जाएगा.

- The temperature will come down tomorrow-

Darja harart kal neecahy ajayga.

फूल तोड़ना मना है.

- Plucking flowers is prohibited.

Phool Todna mana hay.

उसे क्या दिया गया?

- What was he given?

Kiyaa diyaaa gaya thaa?

English to हिंदी-اردو Sentences

मैं आकाश-पताल एक कर दूंगा.

- I will move heaven and earth.
Main Puri koshish karu ga.

हमें क्या पढ़ाया जाता था?

- What were we taught?
Hamin kiyaa padhaya jata tha?

तुम्हें सजा मिलनी चाहिए।

- You must be punished.
Tumhain saza milni chahye.

इस रकम को मेरे नाम से जमा कर दें.

- Please credit this amount to my account.
Please, yeh raqam meray account main jama kar dain.

वह घबड़ाया-सा लगता है.

- He looks rather nervous.
Wuh preshan lag raha hay.

उसे जोर का सिर दर्द है.

- He has a bad headache.
usay bura sir dard hay.

वह बाल-बाल बच गया.

- He had a narrow escape.
wuh mushkil say bachaa.

English to हिंदी-اردو Sentences

मेरे साथ किसी को भेजा नहीं जाना चाहिए।

- No one should be sent with me.

Mere saath kisi ko bheja nahi jana chahye?

यहाँ पर पैन से लिखा जाना है।

- Pen is to be used here.

Pen say yahan likha jana hay.

हमारी तनख्वाह बढ़ाई जानी है।

- Our salary is to be increased.

Hamri Tankha badhai jani hay.

होमवर्क जरूर करना चाहिए।

- Homework must be done.

Homework zarur hona chahye.

वो मुझे भिजवाता है।

- He makes me go.

wuh mujjy bhijvata hay.

उसने मुझे समझाया।

- She made me understand.

Usnay Mujhy samjhya.

आप किस चीज में सफल हुये?

- What did you succeed in?
App kis main kamyab huway?

English to हिंदी-اردو Sentences

कितना हुआ?

- How much is that?
Yeh kitnay ka hay?

वह मेरा परिचय कराने के लिए बाहर गया।

- He went out to introduce me.
vah mera parichay karaane ke lie baahar gaya.

उसकी बातों में वजन है.

- His words have weight.
unakee baaton mein vajan hai.

क्या अब तुम उसे हराओगे?

- Will you now beat him?
Kya tum ab usey maro gy?

मैंने उससे बहुत कुछ कहा.

- I said many things to him.
Main ne usey boht kuch kaha tha.

तुम्हारा शक किस पर है?

- Whom do you suspect?
Tumhen kis pr shaq ha?

बात उसके कान में डाल दो.

- Bring it to his notice.
Yeh bat us ki tawajjuh mein laao.

देखते-देखते भीड़ लग गयी.

- A crowd gathered within few seconds.
chand sekend mein bheed jama ho gae.

English to हिंदी-اردو Sentences

आपका कितना पैसा मेरे यहाँ बाकि है?	<ul style="list-style-type: none">How much do I owe you? Mera tum pr kitna haq ha?
वह बोलने से बाज नहीं आएगा.	<ul style="list-style-type: none">He will not refrain from speaking. Woh bolny se baaz nahi aye ga.
मेरे पास कोई विकल्प नहीं है.	<ul style="list-style-type: none">I have no alternative. Mery pas koi or rasta nahi ha
इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं?	<ul style="list-style-type: none">What do we call this in English? Hum isey Angrezi min kya kehty hain?
कृपया यह पता लिख लीजिए.	<ul style="list-style-type: none">Please write down this address. Meharbani farma kr ye pta likh dain.
आप का जवाब नहीं.	<ul style="list-style-type: none">You have no match. Tumhara koi jodh nahi ha.
तुम्हें इस परिस्थिति से फायदा नहीं उठाना चाहिए.	<ul style="list-style-type: none">You shouldn't have undue advantage of this situation. Tumhen iss soorat e haal ka najaiz faida ni uthana chahiye.
रविवार को कौन तारीख पड़ती है?	<ul style="list-style-type: none">Which date falls on Sunday? Itwar ko kon si tareekh ha?

English to हिंदी-اردو Sentences

उसके दिमाग में कुछ खराबी हो.

- There is something wrong with his brain.
Iss kay sath koi dimaghi masla ha.

किसकी दवा हो रही है?

- By whom is he being treated?
Us ka ilaj kis se krwaya gya?

मैं साढ़े पांच बजे वाली गाड़ी से पहुँचूंगा.

- I shall reach by 5:30 on train.
Main train se 5.30 tak pohncch jaun ga.

उसकी किस्मत ने पलटा खाया.

- His luck took a turn.
Us ki qismat ka pasa palta.

मेरा कमरा दूसरी मंजिल पर है.

- My room is on the second floor.
Mera kamra dusari manzil par ha.

तुम्हें कुछ कम खाना चाहिए.

- You should eat little less.
Tumhen thora km khana chahiye.

जल्दी करो वरना गाड़ी छुट जाएगी

- Hurry up, otherwise, you will miss the train.
Jaldi kro, wrna tumhari train choot jay gi.

वह झूठ बोलता है.

- He tells a lie.
Woh jhoot bolta ha

English to हिंदी-اردو Sentences

यह दुख की बात है.	<ul style="list-style-type: none">It is a matter of sorrow. Ye bohat dukh ki bat ha.
मेरी उससे बात हुयी.	<ul style="list-style-type: none">I had a talk with him. Meri us se bat ho chuki thi.
मुझे लम्बी चौड़ी बातें पसंद नहीं.	<ul style="list-style-type: none">I don't like tall talks. Mujhe bari baten ni pasand.
शांति रखो.	<ul style="list-style-type: none">Keep calm/quiet. Khamosh raho.
इसे हंसी ठट्टा मत समझो.	<ul style="list-style-type: none">Do not take it as a child's play. Isey bachon ka khel mat smjho.
मेरी किस्मत तुम्हारे हाथ में है.	<ul style="list-style-type: none">My fate is in your hands. Meri qismat tumhary hathon mein ha.
यह काम तुम्हारे लायक नहीं.	<ul style="list-style-type: none">This work is not suitable for you. Yeh kaam tumhary liye munasib nahi ha.
इम्तहान मेरे सिर पर सवार है.	<ul style="list-style-type: none">The examination is on my head. Mery imtehan sir par hain.

English to हिंदी-اردو Sentences

गाड़ी वक़्त पर आ गयी.	<ul style="list-style-type: none">The train came on time. Train waqt par aa gai.
मैं उसकी नस-नस से वाकिफ हूँ.	<ul style="list-style-type: none">I know I am familiar with every inch of him. Main us ki rag rag se waqif hun.
उसके यहाँ दुकानदार के पचास रुपए बाकी है.	<ul style="list-style-type: none">He owes the shopkeeper fifty rupees. Us kay paas dukandar k pachas rupy hain.
अपना तो सारा हिसाब बिगड़ गया.	<ul style="list-style-type: none">All my calculations went wrong. Mery tmam andazy ghalat sabit hue.
शुरुआत अच्छी हुई है.	<ul style="list-style-type: none">It's a good beginning. Yeh aik achi shuruat ha.
हो सकता है कि वह दिल्ली में हो.	<ul style="list-style-type: none">He might be in Delhi. Woh Delhi mein ho skta ha.
संभल कर चलो.	<ul style="list-style-type: none">Walk carefully. Ehteyat se chlu.
मुझे उससे शिकायत है.	<ul style="list-style-type: none">I have a complaint against him. Mery pas us kay khilaf shikayat ha.

English to हिंदी-اردو Sentences

सच-सच कहो.

- Speak what is true.
Jo such ha wohi bolo.

इस मामले में मुझे मत सानो.

- Do not involve me in this matter.
Mujhe is muamly mein mat ghaseeto.

दौड़ते-दौड़ते पाँव घिस गये.

- She was tired of running about.
Woh bhag bhag kr thak gai thi.

लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ.

- But he did not budge an inch.
Lekin woh aik qadam peechay nahi hata.

कूएं से पानी लाओ.

- Fetch water from the well.
Kunwen se pani bahir nikalo

आज पानी बेहद बरसा है.

- It has rained excessively today.
Aaj boht zyada Barish hui ha

ये दोनों बहुत-कुछ एक से हैं.

- These two are more or less alike.
Yeh dono kam az kam aik jaisi hain.

मैं जिन्दगी भर भटकता रहा.

- I have wandered aimlessly throughout my life.
Mainay apni sari zindagi bemaqsad phirta raha hun.

English to हिंदी-اردو Sentences

तुम वहाँ जाओ या मैं जाऊँ?	<ul style="list-style-type: none">• Will, you go there or shall I? Kya tm wahan jao gy ya main?
आज उसका सच्चा स्वरूप सामने आ गया है.	<ul style="list-style-type: none">• Today he has come out in his true colors. Aj us ne apna asal rang dikha hi diya.
इसमें किसी का हित नहीं होगा.	<ul style="list-style-type: none">• It will benefit none. Is se much faida nahi ho ga.
एक दिन का समय दो.	<ul style="list-style-type: none">• Give me a day's time. Mujhe aik din ka waqt do.
मुझे अपने आप पर शर्म आती है	<ul style="list-style-type: none">• I am ashamed of myself. Mujhe khud pe sharmindagi ho rahi ha.
बात साफ है.	<ul style="list-style-type: none">• The matter is clear. Muamla bilkul saf ha.
तुम्हारा साथ कौन देगा.	<ul style="list-style-type: none">• Who will cooperate with you? Tumhara sath kon dy ga?
घर सजा हुआ था.	<ul style="list-style-type: none">• The house was decorated. Ghar saja hua tha.
वह मेरे विरुद्ध है.	<ul style="list-style-type: none">• He is against me. Woh mery khilaf ha.
उसने मैच में गोल किया.	<ul style="list-style-type: none">• He scored a goal in the match. Us ne match mein aik goal kiya.